



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र 1944 (श०)

(सं० पटना 149) पटना, वृहस्पतिवार, 31 मार्च 2022

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

28 जनवरी 2022

सं० 9/डी०एल०ए०—(प्राधिकार)—नियुक्ति—05/2021—88/रा०—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (RFCTLARR Act-2013) की धारा-55 एवं बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2014 के अध्याय-IX के नियम-35 के तहत समुचित सरकार (Appropriate Government) द्वारा अधिसूचना जारी कर राज्य के 09 प्रमंडलीय मुख्यालयों में अवस्थित भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार (Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority) में निबंधक के पद पर नियुक्ति किये जाने का प्रावधान है।

2. इस हेतु महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-45208/A.D.Apptt. दिनांक-04.10.2021 के द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में बिहार भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली-2013 के नियम-35 के तहत राज्य के प्रत्येक राजस्व प्रभाग के मुख्यालयों यथा—पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, मुंगेर, सहरसा, पूर्णिया, गया एवं भागलपुर में स्थापित भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार न्यायालयों में निबंधक के पद पर निम्नांकित पदाधिकारियों को अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

| क्र० | पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम/वर्तमान पदस्थापन स्थल      | पदस्थापन किये जानेवाले प्राधिकार न्यायालय का नाम                         |
|------|---|--|
| 1    | 2   | 3  |
| 1    | श्री शक्तिधर भारती,<br>सब जज—सह—ए.सी.जे.एम., हाजीपुर। | भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार न्यायालय, मुजफ्फरपुर। |
| 2    | श्री सुकुल राम,<br>सब जज—सह—ए.सी.जे.एम., पटना।        | भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार न्यायालय, पटना।       |

| क्र० | पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम/वर्तमान पदस्थापन स्थल                       | पदस्थापन किये जानेवाले प्राधिकार न्यायालय का नाम                        |
|------|--|---|
| 3    | श्री दीपक कुमार III,<br>सब जज-सह-ए.सी.जे.एम., दरभंगा।                  | भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार न्यायालय, दरभंगा।    |
| 4    | श्री कुमार कौशल किशोर,<br>सब जज-सह-ए.सी.जे.एम.,<br>बिहारशरीफ (नालंदा)। | भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार न्यायालय, गया।       |
| 5    | श्री सुशांत रंजन,<br>सब जज-सह-ए.सी.जे.एम., मोतिहारी।                   | भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार न्यायालय, सारण।      |
| 6    | श्री मनोज कुमार V,<br>सब जज-सह-ए.सी.जे.एम.,<br>बिक्रमगंज (रोहतास)।     | भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार न्यायालय, भागलपुर।   |
| 7    | श्री देव प्रिय कुमार,<br>सब जज-सह-ए.सी.जे.एम.,<br>बेलसंड (सीतामढ़ी)।   | भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार न्यायालय, पूर्णियां। |
| 8    | श्री ओम शंकर<br>सब जज-सह-ए.सी.जे.एम., खगड़िया।                         | भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार न्यायालय, सहरसा।     |
| 9    | श्री अम्बिका प्रसाद चौधरी<br>सब जज-सह-ए.सी.जे.एम., गोपालगंज।           | भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार न्यायालय, मुंगेर।    |

3. प्राधिकार के निबंधक के वेतन एवं भत्ते का भुगतान महालेखाकार, बिहार/वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार पटना द्वारा निर्गत वेतन पूर्जा के आधार पर किया जाएगा।

4. निबंधक की अन्य सेवा शर्तें वही होगी जो बिहार राज्य में कार्यरत सब-जज पर लागू होंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर निर्गत एतद् संबंधी पत्र/परिपत्र के प्रावधान प्रभावी होंगे।

5. निबंधक के वेतनादि से संबंधित व्यय भार मुख्य शीर्ष 2029 भू-राजस्व 001 निदेशन और प्रशासन 0004 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार मांग सं०-40 विपत्र कोड संख्या-एन 2029000010004 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

6. निबंधक का वेतनादि भुगतान राजस्व विभागीय ज्ञापांक-1292/रा० दिनांक-20.11.2015 द्वारा निबंधक के सृजित स्थायी पदों के विरुद्ध किया जायेगा तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राधिकार के अधीन कार्यरत निबंधक (Registrar) होंगे।

7. नवनियुक्त सभी निबंधकों को निदेशित है कि वे अपने पदस्थापन कार्यालय में अपना योगदान नियुक्ति पत्र प्राप्ति की तिथि के सात दिनों (एक सप्ताह) के भीतर देना सुनिश्चित करेंगे।

8. उक्त पर सक्षम प्राधिकार की अनुशंसा/सहमति प्राप्त है।

9. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सुशील कुमार,  
निदेशक, भू-अर्जन-सह-अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 149-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>